

## 7. नए प्रश्न नए विचार

### अध्याय-समीक्षा

---

- बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था।
- बुद्ध क्षत्रिय थे तथा 'शाक्य' नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही उन्होंने ज्ञान की खोज में घर के सुखों को छोड़ दिया।
- बुद्ध ने पहली बार वाराणसी के निकट सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया।
- बुद्ध ने कहा की यह जीवन दुखों से भरा है और ऐसा हमारी ईच्छा तथा लालसाओं के कारण होता है। आत्मसंयम अपना कर हम ऐसी लालसा से बच सकते हैं। बुद्ध ने कहा की लोग दयालु हो तथा मनुष्य के साथ - साथ जानवरों का भी आदर करें। हमारे कर्म के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, वे हमारे वर्तमान जीवन के साथ -साथ भविष्य को भी प्रभावित करती हैं।
- कभी-कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को **तृष्णा** कहा है।
- बुद्ध का मानना था की हमारे कर्म के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, वे हमारे वर्तमान जीवन के साथ -साथ भविष्य को भी प्रभावित करती हैं।
- बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी।
- बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें।
- उपनिषद् का शाब्दिक अर्थ है 'गुरु के समीप बैठना'। उपनिषद् उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है।
- वह वज्जि संघ के लिच्छवि कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर जैन धर्म के सार्वधिक महत्वपूर्ण विचारक थे।
- महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। बारह वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
- महावीर की शिक्षाएं सरल तथा प्राकृत भाषा में थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके।
- महावीर का मानना था की सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिये। उन्हें अहिंसा के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिये। किसी भी जीव को न तो काटना चाहिये और न ही हत्या करनी चाहिये।
- महावीर का कहना था, **"सभी जीव जीना चाहते हैं ' सभी को जीवन प्रिय है।"**
- महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने के लिए उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता था पुरुषों को वस्त्र सहित सबकुछ त्याग देना पड़ता था।
- जैन शब्द 'जिन' शब्द से निकला है जिसका अर्थ है 'विजेता'।

- संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री व पुरुष शहरो व गाँवों में जाकर भिक्षा मांगकर अपना सदा जीवन जीते थे यही कारण था की उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया है जिसका अर्थ है साधू तथा साध्वी ।
- विहार ऐसे शरणस्थलों को कहा जाता है जो भिक्षु तथा भिक्षुणीयो द्वारा स्वयं तथा उनके समर्थको के लिये बनाए गए थे ।
- संघ की स्थापना महावीर तथा बुद्ध ने की । महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था की घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है । यहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे ।
- संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम **विनयपिटक** ग्रन्थ में लिखे गए है ।
- संघ में प्रवेश लेने वाले लोगो को कई नियमों का पालन करना पड़ता था । संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग -अलग व्यवस्था थी । सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे । एक स्त्री को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने पति की अनुमति लेनी पड़ती थी । संघ में प्रवेश लेने वालें स्त्री व पुरुष भिक्षा मांगकर अपना सदा जीवन जीते थे ।
- संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता-पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी।

## प्रश्न-अभ्यास

**प्रश्न: बुद्ध ने लोगो तक अपने विचारो का प्रसार करने के लिए किन-किन बातों पर ज़ोर दिया?**

**उत्तर:** बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं निम्न है:-

- बुद्ध ने कहा की यह जीवन दुखो से भरा हैं और ऐसा हमारी ईच्छा तथा लालसाओं के कारण होता है।
- आत्मसंयम अपना कर हम ऐसी लालसा से बच सकते है।
- बुद्ध ने कहा की लोग दयालु हो तथा मनुष्य के साथ - साथ जानवरों का भी आदर करे।
- हमारे कर्म के परिणाम ,चाहे वे अच्छे हो या बुरे , वे हमारे वर्तमान जीवन के साथ -साथ भविष्य को भी प्रभावित करती है।

**प्रश्न: 'सही' व 'गलत' वाक्य बताओ।**

**(i) बुद्ध ने पशुबलि को बढ़ावा दिया।**

**उत्तर:** गलत।

**(ii) बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है।**

**उत्तर:** सही।

**(iii) बुद्ध ने शिक्षा कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।**

**उत्तर:** गलत।

**(iv) बुद्ध बने बोध में ज्ञान प्राप्त किया।**

**उत्तर :** सही।

**(v) उपनिषदों के विचारो का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है।**

**उत्तर:** सही।

**प्रश्न: उपनिषदों के विचारो किन-किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे?**

**उत्तर:** उपनिषदों के विचार निम्न प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे:-

- (i) कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे।
- (ii) जबकि अन्य यगों की उपयोगिता के बारे में जानना कहते थे।

**प्रश्न: महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं?**

**उत्तर:** महावीर की प्रमुख शिक्षाएं निम्न थीं:-

- (i) सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिये।
- (ii) उन्हें अहिंसा के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिये।
- (iii) किसी भी जीव को न तो काटना चाहिये और न ही हत्या करनी चाहिये।
- (iv) महावीर का कहना था, 'सभी जीव जीना कहते हैं। सभी को जीवन प्रिय है'।

## अतिरिक्त प्रश्न-उत्तर

---

**प्रश्न : बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं?**

**उत्तर :** बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं निम्न हैं:-

- (i) बुद्ध ने कहा कि यह जीवन दुखों से भरा है और ऐसा हमारी ईच्छा तथा लालसाओं के कारण होता है।
- (ii) आत्मसंयम अपना कर हम ऐसी लालसा से बच सकते हैं।
- (iii) बुद्ध ने कहा कि लोग दयालु हो तथा मनुष्य के साथ - साथ जानवरों का भी आदर करें।
- (iv) हमारे कर्म के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, वे हमारे वर्तमान जीवन के साथ -साथ भविष्य को भी प्रभावित करती हैं।

**प्रश्न: बुद्ध और महावीर ने अपनी शिक्षाएं कौन सी भाषा दी?**

**उत्तर:** बुद्ध और महावीर ने अपनी शिक्षाएं प्राकृत भाषा में दी।

**प्रश्न: महावीर के अनुयायियों को किन-किन नियमों का पालन करना पड़ता था ?**

**उत्तर:** महावीर के अनुयायियों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता था :-

- (1) महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था ।
- (2) उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने के लिए उन्हें सख्त हिदायत थी ।
- (3) उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था ।
- (4) पुरुषों को वस्त्र सहित सबकुछ त्याग देना पड़ता था ।

**प्रश्न: महावीर कौन थे ?**

**उत्तर:** महावीर जैन धर्म के सार्वधिक महत्वपूर्ण विचारक थे ।

**प्रश्न: संघ नामक संगठन की स्थापना किसने और क्यों की ?**

**उत्तर:** संघ की स्थापना महावीर तथा बुद्ध ने की । महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है । यहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे ।

**प्रश्न: विनयपिटक ग्रन्थ क्या है ?**

**उत्तर:** संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनयपिटक ग्रन्थ में लिखे गए हैं ।

**प्रश्न: विनयपिटक ग्रन्थ से कौन - कौन सी जानकारियां प्राप्त होती हैं ?**

**अथवा**

**संघ में प्रवेश लेने वाले बौद्ध भिक्षुओं को किन - किन नियमों का पालन करना पड़ता था ?**

**उत्तर:** विनयपिटक ग्रन्थ से निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती हैं:-

- (1) संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग -अलग व्यवस्था थी ।
- (2) सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे ।
- (3) एक स्त्री को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने पति की अनुमति लेनी पड़ती थी ।
- (4) संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री व पुरुष भिक्षा मांगकर अपना सदा जीवन जीते थे ।

**प्रश्न: प्राकृत भाषा में भिक्षु तथा भिक्षुणी किसे कहा जाता है ?**

**उत्तर:** संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री व पुरुष शहरों व गाँवों में जाकर भिक्षा मांगकर अपना सदा जीवन जीते थे यही कारण था की उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया है जिसका अर्थ है साधू तथा साध्वी ।

**प्रश्न: 'विहार, शब्द से आप क्या समझते हैं ?**

**उत्तर:** विहार ऐसे शरणस्थलों को कहा जाता है जो भिक्षु तथा भिक्षुणीयों द्वारा स्वयं तथा उनके समर्थकों के लिये बनाए गए थे ।